

थाना गजरौला पुलिस द्वारा प्राइवेट बसों से अवैध वसूली करने वाली गैंग का खुलासा कर वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री राजीव कुमार के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला पुलिस द्वारा डगामार वाहनो/प्राइवेट बसों से अवैध वसूली करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2022 को वादी/शिकायतकर्ता श्री सलमान पुत्र शरीफ निवासी ग्राम गंवा थाना रजपुरा जनपद सम्भल द्वारा प्राइवेट बस से प्रतिमाह अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0सं0 496/2022 धारा 386,506 भादवि बनाम 1. भूरा उर्फ जावेद पुत्र महमूद खाँ निवासी ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 2. कलवा उर्फ जाहने आलम निवासी मौ0 सेफी नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा 3. सोनू पुत्र अहसान निवासी मौ0 तहसील थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा 4. आदिल पुत्र आरिफ 5. आमिर पुत्र आरेफिन निवासीगण ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा के विरुद्ध पंजीकृत कराया था ।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । इसी क्रम में कल दिनांक 28.08.2022 को उक्त घटना में संलिप्त पाये जाने के आधार पर 03 अभियुक्तों को 1. आदिल पुत्र आरेफिन 2. आमिर पुत्र आरेफिन निवासीगण ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 3. सोनू पुत्र अहसान निवासी मौ0 सौफीनगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरांत आज दिनांक 29.08.2022 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा सूचना पर वांछित/फरार चल रहे 02 अभियुक्त 1. भूरा उर्फ जावेद पुत्र महमूद खाँ निवासी ग्राम सिहाली जागीर थाना गजरौला जनपद अमरोहा 2. कलवा उर्फ जाहने आलम निवासी मौ0 सेफी नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है की गिरफ्तार अभियुक्तगण जबरदस्ती प्राइवेट बसो से प्रतिमाह अवैध रूप से वसूली करते थे व अवैध रूप से सवारी बैठाते तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते थे ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. भूरा उर्फ जावेद पुत्र महमूद खाँ निवासी ग्राम सिहाली जागीर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. कलवा उर्फ आले अमीन निवासी मौ0 सेफी नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त भूरा उर्फ जावेद:-

1. मु0अ0सं0 496/2022 धारा 386,506 थाना गजरौला जनपद ।
2. मु0अ0सं0 475/2022 धारा 386,506 थाना गजरौला जनपद ।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त कलवा उर्फ आले अमीन:-

1. मु0अ0सं0 496/2022 धारा 386,506 थाना गजरौला जनपद ।
2. मु0अ0सं0 475/2022 धारा 386,506 थाना गजरौला जनपद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 नितेन्द्र वशिष्ठ थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. हे0का0 114 लोकेश थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
3. का0 159 विपिन थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA